



### डाउनटाउन ब्रैम्पटन में बदलाव होने जा रहा है

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (20 अप्रैल, 2022) – इस सप्ताह, रीजन ऑफ पील (Region of Peel) के द्वारा निर्माण का पहला फेज शुरू करते हुए, डाउनटाउन ब्रैम्पटन (Downtown Brampton) में बदलाव होने जा रहा है। क्षेत्र में वाटरमेन और सेनिटरी सीवरों को बदला जा रहा है।

निर्माण की स्टेज 1 के दौरान, रीजन का कॉन्ट्रैक्टर, क्वीन स्ट्रीट ईस्ट (Queen Street East) की दो बीच की लेनों पर काम करेगा और क्वीन स्ट्रीट (Queen Street) को कम करके प्रत्येक दिशा में एक लेन तक किया जाएगा, जो लगभग मेन स्ट्रीट (Main Street) से, चैपल स्ट्रीट (Chapel Street) के गो ट्रैक्स (GO Tracks) ईस्ट तक जाएगी। इस ट्रैफिक कंट्रोल सेटअप को, अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर और सतह के काम के निर्माण के लिए संशोधित किया जाएगा। हालांकि, ट्रैफिक की एक लेन को हर समय, क्वीन स्ट्रीट पर बनाए रखा जाएगा।

क्वीन स्ट्रीट के जिस क्षेत्र में निर्माण हो रहा होगा, वहां ऑन-स्ट्रीट पार्किंग उपलब्ध नहीं होगी। मुफ्त पार्किंग, [म्युनिसिपल पार्किंग गैराजों \(municipal parking garages\)](#): नेल्सन सक्वेयर (Nelson Square), मार्केट सक्वेयर (Market Square), वेस्ट टावर (West Tower), सिटी हॉल (City Hall) और जॉन स्ट्रीट (John Street) में उपलब्ध होगी।

रीजन यह सुनिश्चित करेगा कि कारोबारियों की, बिल्डिंगों के पीछे लेन वाले रास्तों के द्वारा डिलीवरी के लिए पहुंच हो। इस पहली स्टेज में, कारोबारों के लिए डिलीवरीज और लोडिंग या अनलोडिंग को आसान बनाने के लिए, हार्मस्वर्थ लेन (Harmsworth Lane) और गार्डन सक्वेयर लेन (Garden Square Lane) का प्रयोग किया जा सकता है। सिटी, जॉन स्ट्रीट और क्वीन स्ट्रीट के बीच में मेन स्ट्रीट साउथ (Main Street South) पर, एक लोडिंग/अनलोडिंग ज़ोन समर्पित करने पर भी विचार कर रही है, जो रेस्टोरेंट्स और फूड कारोबारों के लिए पिकअप्स में सहायता करेगा।

पैदल यात्रियों की पहुंच को, सभी कारोबारों तक बनाए रखा जाएगा और साइडवॉक्स खुली रहेंगी। बुलेवाईस के अंदर थोड़ा, छोटी-अवधि का काम होगा, इसके बाद कर्ब्स और साइडवॉक्स की पूरी रिप्लेसमेंट होगी, उस समय पैदल यात्रियों को स्ट्रीट के दूसरी तरफ का रास्ता दिया जाएगा।

समय सीमाओं सहित, निर्माण के बारे में अधिक विवरणों के लिए, [रीजन ऑफ पील की वेबसाइट \(Region of Peel's website\)](#) पर जाएं।

### स्पोर्ट लोकल

कोविड-19 (COVID-19) महामारी ने ब्रैम्पटन की डाउनटाउन बिजनेस कम्युनिटी पर बहुत पड़ा असर डाला है और सिटी, रुकावटों को कम करने और उनकी आर्थिक बहाली में उनकी हिमायत करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही यह लगातार, पब्लिक जगहों का विस्तार करने के लिए महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारों में निवेश कर रही है।



निवासियों को सलाह दी जाती है कि वे इस समय के दौरान, डाउनटाउन की दुकानों पर जाना जारी रखें। आप ब्रैम्पटन के छोटे कारोबारियों की पूरी सूची, [स्पोर्ट लोकल ब्रैम्पटन की वेबसाइट \(Support Local Brampton website\)](#) पर प्राप्त कर सकते हैं।

चूंकि निर्माण कार्य जारी है, इसलिए अपनी पसंदीदा दुकानों पर जाने के लिए उपलब्ध पार्किंग विकल्पों की पूरी सूची के लिए, [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर जाएं।

### डाउनटाउन ब्रैम्पटन प्रोजेक्ट्स सेंटर

[डाउनटाउन ब्रैम्पटन प्रोजेक्ट्स सेंटर \(डी.बी.पी.सी.\) \(Downtown Brampton Projects Centre\) \(DBPC\)](#) खुला हुआ है। सिटी का स्टाफ, डाउनटाउन के कारोबारियों और निवासियों की सहायता करने तथा डाउनटाउन को पुनः शक्तिशाली बनाने के लिए प्रोग्राम और पहलकदमियां प्रदान करना जारी रखने के लिए तैयार है। निर्माण के दौरान, पील रीजन (Peel Region) का स्टाफ भी उपलब्ध रहेगा।

डी.बी.पी.सी. के बारे में अधिक जानकारी, [www.brampton.ca/downtownbrampton](http://www.brampton.ca/downtownbrampton) से प्राप्त करें।

### इंटीग्रेटिड डाउनटाउन प्लान के बारे में

ये विस्तार सिटी के इंटीग्रेटिड डाउनटाउन प्लान (आई.डी.पी.) (Integrated Downtown Plan) (IDP) को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। यह प्लान, ब्रैम्पटन की कई जारी पहलकदमियों और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए, काम करने के लिए एक रोडमैप है। संभावना है कि यह, भविष्य की वृद्धि और कार्यनीति संबंधी निवेश में मार्गदर्शन करेगा।

आई.डी.पी. (IDP) के मार्गदर्शन वाले सिद्धांत, भागीदारी, इनोवेशन और स्थिरता हैं। यह ब्रैम्पटन को महत्वपूर्ण आर्थिक संचालक, रीजनल सांस्कृतिक हब और इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट (Innovation District) की स्थिति में लाते हुए – इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स, शहरी डिज़ाइन, ज़मीन के प्रयोग और प्रोग्रामिंग दखलों को कोऑर्डिनेट करने में मदद करेगा।

आई.डी.पी. के बारे में अधिक जानकारी के लिए, [www.brampton.ca/IDP](http://www.brampton.ca/IDP) पर जाएं।

डाउनटाउन ब्रैम्पटन के बारे में अधिक जानकारी के लिए, [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर जाएं।